



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 2002/आश्विन 16, 1924

No. 461]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2002/ASVINA 16, 1924

कोयला और खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2002

सा. का. नि. 687(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. भ.नि. 15(5) 48, तारीख 11 दिसंबर, 1948 के साथ प्रकाशित कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2002 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
2. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 1 में, उपपैरा (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“(iii) यह सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि, दरभंगा हाउस, रांची के, जो एक अकानूनी संगठन है और कोयला खान राष्ट्रीयकरण भविष्य निधि नियम, 1976 के अधीन गठित और कोलमाइन्स अथॉरिटी लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि के सभी सदस्यों को लागू होगी”।
3. उक्त स्कीम के पैरा 2 में, उपपैरा (छ)(ii) का लोप किया जाएगा।

4. उक्त स्कीम में, पैरा 25ग के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“25घ. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि और कोलमाइन्स अथॉरिटी लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि के कर्मचारियों को स्कीम की सदस्यता।

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कोयला खान के नियोजन में है और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि तथा कोलमाइन्स अथॉरिटी लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि का सदस्य है, निधि का सदस्य हो जाएगा।

(2) कर्मचारी स्कीम के पैरा 27 की सारणी 5 में विनिर्दिष्ट दर पर अपने अभिदाय का संदाय करेगा।”

5. उक्त स्कीम में, पैरा 27अ के उपपैरा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि इस उपपैरा के उपबन्ध सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि के ऐसे सदस्यों को लागू नहीं होंगे जो कोलमाइन्स अथॉरिटी लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि के सदस्य होने की तारीख से उक्त समय से अधिक का अभिदाय कर रहे हैं”।

6. निधि का अंतरण—उक्त स्कीम में, पैरा 31ग के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“31घ. (1) वे सभी धन और आस्तियाँ, जो सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि और कोलमाइन्स अथॉरिटी लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि के नाम जमा हैं, निधि में अंतरित हो जाएंगी और आयुक्त द्वारा स्कीम के उपबन्धों के अनुसार काम में लाई जाएंगी।

(2) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि और कोलमाइन्स अथॉरिटी लिमिटेड कर्मचारिवृन्द भविष्य निधि को किसी निषेधाज्ञा द्वारा किसी भी समय संदेय या संदत्त किए जाने के लिए शोध्य कोई बकाया रकम, उस तारीख से, जिसको रकम शोध्य हो जाती है, तीस दिन के भीतर निधि में, यथास्थिति, संदत्त की जाएगी और संदेय होगी।

(3) उपर्युक्त (2) के अधीन किसी नियोजक द्वारा किए गए व्यतिक्रम पर स्कीम के सदस्य को उस ब्याज की दर से, जो उसके निधि के संचयन पर लागू है, दो प्रतिशत की अधिक दर पर ब्याज संदेय होगा।"

[फा. सं. 20/18/97-एएसओ/पीआरआईडब्ल्यू]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.—1 कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 को अधिसूचना सं. भ. नि. 15(5)/48 तारीख 11-12-1948 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया :—

2. सं. भ. नि. 15(9)/50, तारीख 9-1-1950
3. सं. भ. नि. 15(9)/50, तारीख 23-2-1950
4. सं. का. नि. आ. 608, तारीख 28-4-1951
5. सं. का. नि. आ. 1585, तारीख 13-10-1951
6. सं. का. नि. आ. 138, तारीख 26-1-1952
7. सं. का. नि. आ. 317, तारीख 23-2-1952
8. सं. का. नि. आ. 795, तारीख 3-5-1952
- सं. का. नि. आ. 1134, तारीख 28-6-1952
- का. नि. आ. 1212, तारीख 12-7-1952
11. सं. का. नि. आ. 1985, तारीख 29-11-1952
12. सं. का. नि. आ. 3306, तारीख 20-10-1954
13. सं. का. नि. आ. 1057, तारीख 14-5-1955
14. सं. का. नि. आ. 1208, तारीख 4-6-1955
15. सं. का. नि. आ. 1472, तारीख 9-7-1955
16. सं. का. नि. आ. 1747, तारीख 13-8-1955
17. सं. का. नि. आ. 1852, तारीख 27-8-1955
18. सं. का. नि. आ. 2041, तारीख 17-9-1955
19. सं. का. नि. आ. 2226, तारीख 8-10-1955
20. सं. का. नि. आ. 3488, तारीख 12-11-1955
21. सं. का. नि. आ. 366, तारीख 18-2-1956
22. सं. का. नि. आ. 998, तारीख 28-4-1956
23. सं. का. नि. आ. 1340, तारीख 9-6-1956
24. सं. का. नि. आ. 1398, तारीख 16-6-1956
25. सं. का. नि. आ. 1766, तारीख 4-8-1956
26. सं. का. नि. आ. 128, तारीख 12-1-1957
27. सं. का. नि. आ. 129, तारीख 12-1-1957
28. सं. का. नि. आ. 509, तारीख 16-2-1957

29. सं. का. नि. आ. 510, तारीख 16-2-1957
30. सं. का. नि. आ. 816, तारीख 16-3-1957
31. सं. का. नि. आ. 2564, तारीख 10-8-1957
32. सं. का. नि. आ. 3566, तारीख 9-11-1957
33. सं. का. नि. आ. 3899, तारीख 7-12-1957
34. सं. का. नि. आ. 238, तारीख 18-1-1958
35. सं. का. नि. आ. 424, तारीख 1-2-1958
36. सं. का. नि. आ. 511, तारीख 12-4-1958
37. सं. का. आ. 2276, तारीख 17-9-1960
38. सं. का. आ. 2278, तारीख 17-9-1960
39. सं. का. आ. 2620, तारीख 4-11-1961
40. सं. का. आ. 2778, तारीख 25-11-1962
41. सं. सा. का. नि. 1121, तारीख 25-8-1962
42. सं. सा. का. नि. 1173, तारीख 1-9-1962
43. सं. सा. का. नि. 1678, तारीख 8-12-1962
44. सं. सा. का. नि. 45, तारीख 5-1-1963
45. सं. सा. का. नि. 147, तारीख 26-1-1963
46. सं. सा. का. नि. 777, तारीख 4-5-1963
47. सं. सा. का. नि. 943, तारीख 1-6-1963
48. सं. सा. का. नि. 1061, तारीख 22-6-1963
49. सं. सा. का. नि. 1063, तारीख 22-6-1963
50. सं. सा. का. नि. 1245, तारीख 27-7-1963
51. सं. सा. का. नि. 1321, तारीख 10-8-1963
52. सं. सा. का. नि. 1428, तारीख 31-8-1963
53. सं. सा. का. नि. 1772, तारीख 16-11-1963
54. सं. सा. का. नि. 1979, तारीख 28-12-1963
55. सं. सा. का. नि. 128, तारीख 25-1-1964
56. सं. सा. का. नि. 690, तारीख 2-5-1964
57. सं. सा. का. नि. 767, तारीख 23-5-1964
58. सं. सा. का. नि. 843, तारीख 6-6-1964
59. सं. सा. का. नि. 845, तारीख 6-6-1964
60. सं. सा. का. नि. 1203, तारीख 29-8-1964
61. सं. सा. का. नि. 1681, तारीख 28-11-1964
62. सं. सा. का. नि. 404, तारीख 13-3-1965
63. सं. सा. का. नि. 425, तारीख 20-3-1965
64. सं. सा. का. नि. 1504, तारीख 16-10-1965
65. सं. सा. का. नि. 492, तारीख 1-4-1966
66. सं. सा. का. नि. 1221, तारीख 6-8-1966
67. सं. सा. का. नि. 1577, तारीख 15-10-1966
68. सं. सा. का. नि. 859, तारीख 3-6-1967
69. सं. सा. का. नि. 863, तारीख 3-6-1967

70. सं. सा.का.नि. 777, तारीख 27-5-1967
71. सं. सा.का.नि. 1646, तारीख 4-11-1967
72. सं. सा.का.नि. 157, तारीख 27-1-1968
73. सं. सा.का.नि. 1736, तारीख 21-9-1968
74. सं. सा.का.नि. 1140, तारीख 17-5-1969
75. सं. सा.का.नि. 2483, तारीख 1-11-1969
76. सं. सा.का.नि. 2491, तारीख 1-11-1969
77. सं. सा.का.नि. 531, तारीख 4-4-1970
78. सं. का.आ. 54, तारीख 2-1-1970
79. सं. सा.का.नि. 14, तारीख 2-1-1971
80. सं. सा.का.नि. 1006, तारीख 10-7-1971
81. सं. सा.का.नि. 1814, तारीख 4-12-1971
82. सं. सा.का.नि. 1988, तारीख 25-12-1971
83. सं. सा.का.नि. 52, तारीख 1-1-1972
84. सं. सा.का.नि. 509, तारीख 29-4-1972
85. सं. सा.का.नि. 1087, तारीख 9-9-1972
86. सं. सा.का.नि. 1187, तारीख 30-9-1972
87. सं. सा.का.नि. 1521, तारीख 2-12-1972
88. सं. सा.का.नि. 217, तारीख 3-3-1973
89. सं. सा.का.नि. 548, तारीख 26-5-1973
90. सं. सा.का.नि. 976, तारीख 8-9-1973
91. सं. सा.का.नि. 833, तारीख 3-8-1974
92. सं. सा.का.नि. 687, तारीख 31-5-1975
93. सं. सा.का.नि. 2772, तारीख 6-12-1975
94. सं. सा.का.नि. 845, तारीख 12-6-1976
95. सं. सा.का.नि. 1387, तारीख 25-9-1976
96. सं. सा.का.नि. 1391, तारीख 25-9-1976
97. सं. सा.का.नि. 1354, तारीख 11-11-1978
98. सं. सा.का.नि. 463, तारीख 24-3-1979
99. सं. सा.का.नि. 1013, तारीख 28-7-1979
100. सं. सा.का.नि. 907, तारीख 6-9-1980
101. सं. सा.का.नि. 991, तारीख 27-9-1980
102. सं. सा.का.नि. 1159, तारीख 8-11-1980
103. सं. सा.का.नि. 308, तारीख 15-3-1980
104. सं. सा.का.नि. 136, तारीख 7-2-1981
105. सं. सा.का.नि. 513, तारीख 16-7-1983
106. सं. सा.का.नि. 993, तारीख 24-12-1983
107. सं. सा.का.नि. 567, तारीख 9-6-1984
108. सं. सा.का.नि. 1312, तारीख 18-12-1984
109. सं. सा.का.नि. 1110, तारीख 30-11-1985
110. सं. सा.का.नि. 934(अ), तारीख 24-12-1985

111. सं. सा.का.नि. 119, तारीख 8-2-1986
112. सं. सा.का.नि. 363, तारीख 24-5-1986
113. सं. सा.का.नि. 97, तारीख 13-2-1988
114. सं. सा.का.नि. 237, तारीख 2-4-1988
115. सं. सा.का.नि. 414, तारीख 21-5-1988
116. सं. सा.का.नि. 258, तारीख 8-4-1989
117. सं. सा.का.नि. 107, तारीख 24-2-1990
118. सं. सा.का.नि. 506, तारीख 7-9-1991
119. सं. सा.का.नि. 390, तारीख 6-8-1994
120. सं. सा.का.नि. 102, तारीख 22-1-1997
121. सं. सा.का.नि. 264(अ), तारीख 25-5-1998
122. सं. सा.का.नि. 940(अ), तारीख 27-12-2000
123. सं. सा.का.नि. 121, तारीख 14-2-2001

MINISTRY OF COAL AND MINES

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2002

G.S.R. 687(E).—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number PF 15(5) 48, dated the 11th December, 1948, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 2002.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2 In the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 1, after sub-paragraph (ii), the following shall be inserted, namely :—

“(iii) It shall apply to all the members of the Central Coalfields Limited Staff Provident Fund, Darbhanga House, Ranchi, a non-statutory organization and the Coal Mines Authority Limited Staff Provident Fund constituted under the Coal Mines Nationalization Provident Fund Rules, 1976.”

3 In the said Scheme, in paragraph 2, sub-paragraph (g) (ii) shall be omitted.

4 In the said Scheme, after paragraph 25C, the following shall be inserted, namely :—

“25D. Membership of the Scheme to employees of Central Coalfields Limited Staff Provident Fund and Coal Mines Authority Limited Staff Provident Fund.

(1) Every person who is in the employment of a coal mine and is a member of the Central Coalfields Limited Staff Provident Fund and the Coal Mines Authority Limited Staff Provident Fund shall become a member of the Fund.

(2) An employee shall pay his contribution at the rate specified in Table V of paragraph 27 of the Scheme".

5 In the said Scheme, in paragraph 27A, to sub-paragraph (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the provisions of this sub-paragraph shall not apply to the members of the Central Coalfields Limited Staff Provident Fund who are contributing in excess of the above limit on the date they become members of the Coal Mines Provident Fund"

6. **Transfer of Fund.**—In the said Scheme, after paragraphs 31C, the following shall be inserted, namely :—

"31D. (1) All moneys and assets standing to the credit of the Central Coalfields Limited Staff Provident Fund and the Coal Mines Authority Limited Staff Provident Fund shall be transferred to the Fund and shall be dealt with by the Commissioner in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) Any outstanding amount payable or due to be paid at any time by any employer to the Central Coalfields Limited Staff Provident Fund and the Coal Mines Authority Limited Staff Provident Fund shall be paid and be payable, as the case may be, to the Fund within thirty days from the date on which the amount become due.

(3) Any default made by an employer under sub-paragraph (2) shall carry in interest at the rate of two per cent. Over and above the rate of interest as applicable to the member of the Scheme on the accumulation of their Fund."

[F. No. 20/18/97-ASO/PRIW]

RAJIV SHARMA, Jt. Secy

Footnote :—1. The Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948 was published in the Gazette of India vide notification No. PF/15(5)/48 dated 11-12-1948 and amended vide following notifications :

2. No. PF 15(9)/50 dated 9-1-1950

3. No. PF 15(9)/50 dated 23-2-1950

4. No. S.R.O. 608 dated 28-4-1951

5. No. S.R.O. 1585 dated 13-10-1951

6. No. S.R.O. 138 dated 26-1-1952

7. No. S.R.O. 317 dated 23-2-1952

8. No. S.R.O. 795 dated 3-5-1952

9. No. S.R.O. 1134 dated 28-6-1952

10. No. S.R.O. 1212 dated 12-7-1952

11. No. S.R.O. 1985 dated 29-11-1952

12. No. S.R.O. 3306 dated 20-10-1954

13. No. S.R.O. 1057 dated 14-5-1955

14. No. S.R.O. 1208 dated 4-6-1955

15. No. S.R.O. 1472 dated 9-7-1955

16. No. S.R.O. 1747 dated 13-8-1955

17. No. S.R.O. 1852 dated 27-8-1955

18. No. S.R.O. 2041 dated 17-9-1955

19. No. S.R.O. 2226 dated 8-10-1955

20. No. S.R.O. 3488 dated 12-11-1955

21. No. S.R.O. 366 dated 18-2-1956

22. No. S.R.O. 998 dated 28-4-1956

23. No. S.R.O. 1340 dated 9-6-1956

24. No. S.R.O. 1398 dated 16-6-1956

25. No. S.R.O. 1766 dated 4-8-1956

26. No. S.R.O. 128 dated 12-1-1957

27. No. S.R.O. 129 dated 12-1-1957

28. No. S.R.O. 509 dated 16-2-1957

29. No. S.R.O. 510 dated 16-2-1957

30. No. S.R.O. 816 dated 16-3-1957

31. No. S.R.O. 2564 dated 10-8-1957

32. No. S.R.O. 3566 dated 9-11-1957

33. No. S.R.O. 3899 dated 7-12-1957

34. No. S.R.O. 238 dated 18-1-1958

35. No. S.R.O. 424 dated 1-2-1958

36. No. S.R.O. 511 dated 12-4-1958

37. No. S.O. 2276 dated 17-9-1960

38. No. S.O. 2278 dated 17-9-1960

39. No. S.O. 2620 dated 4-11-1961

40. No. S.O. 2778 dated 25-11-1962

41. No. G.S.R. 1121 dated 25-8-1962

42. No. G.S.R. 1173 dated 1-9-1962

43. No. G.S.R. 1678 dated 8-12-1962

44. No. G.S.R. 45 dated 5-1-1963

45. No. G.S.R. 147 dated 26-1-1963

46. No. G.S.R. 777 dated 4-5-1963

47. No. G.S.R. 943 dated 1-6-1963

48. No. G.S.R. 1061 dated 22-6-1963

49. No. G.S.R. 1063 dated 22-6-1963

50. No. G.S.R. 1245 dated 27-7-1963

51. No. G.S.R. 1321 dated 10-8-1963

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 52. No. G.S.R. 1428 dated 31-8-1963 | 88. No. G.S.R. 217 dated 3-3-1973 |
| 53. No. G.S.R. 1772 dated 16-11-1963 | 89. No. G.S.R. 548 dated 26-5-1973 |
| 54. No. G.S.R. 1979 dated 28-12-1963 | 90. No. G.S.R. 976 dated 8-9-1973 |
| 55. No. G.S.R. 128 dated 25-1-1964 | 91. No. G.S.R. 833 dated 3-8-1974 |
| 56. No. G.S.R. 690 dated 2-5-1964 | 92. No. G.S.R. 687 dated 31-5-1975 |
| 57. No. G.S.R. 767 dated 23-5-1964 | 93. No. G.S.R. 2772 dated 6-12-1975 |
| 58. No. G.S.R. 843 dated 6-6-1964 | 94. No. G.S.R. 845 dated 12-6-1976 |
| 59. No. G.S.R. 845 dated 6-6-1964 | 95. No. G.S.R. 1387 dated 25-9-1976 |
| 60. No. G.S.R. 1203 dated 29-8-1964 | 96. No. G.S.R. 1391 dated 25-9-1976 |
| 61. No. G.S.R. 1681 dated 28-11-1964 | 97. No. G.S.R. 1354 dated 11-11-1978 |
| 62. No. G.S.R. 404 dated 13-3-1965 | 98. No. G.S.R. 463 dated 24-3-1979 |
| 63. No. G.S.R. 425 dated 20-3-1965 | 99. No. G.S.R. 1013 dated 28-7-1979 |
| 64. No. G.S.R. 1504 dated 16-10-1965 | 100. No. G.S.R. 907 dated 6-9-1980 |
| 65. No. G.S.R. 492 dated 1-4-1966 | 101. No. G.S.R. 991 dated 27-9-1980 |
| 66. No. G.S.R. 1221 dated 6-8-1966 | 102. No. G.S.R. 1159 dated 8-11-1980 |
| 67. No. G.S.R. 1577 dated 15-10-1966 | 103. No. G.S.R. 308 dated 15-3-1980 |
| 68. No. G.S.R. 859 dated 3-6-1967 | 104. No. G.S.R. 136 dated 7-2-1981 |
| 69. No. G.S.R. 863 dated 3-6-1967 | 105. No. G.S.R. 513 dated 16-7-1983 |
| 70. No. G.S.R. 777 dated 27-5-1967 | 106. No. G.S.R. 993 dated 24-12-1983 |
| 71. No. G.S.R. 1646 dated 4-11-1967 | 107. No. G.S.R. 567 dated 9-6-1984 |
| 72. No. G.S.R. 157 dated 27-1-1968 | 108. No. G.S.R. 1312 dated 18-12-1984 |
| 73. No. G.S.R. 1736 dated 21-9-1968 | 109. No. G.S.R. 1110 dated 30-11-1985 |
| 74. No. G.S.R. 1140 dated 17-5-1969 | 110. No. G.S.R. 934(E) dated 24-12-1985 |
| 75. No. G.S.R. 2483 dated 1-11-1969 | 111. No. G.S.R. 119 dated 8-2-1986 |
| 76. No. G.S.R. 2491 dated 1-11-1969 | 112. No. G.S.R. 363 dated 24-5-1986 |
| 77. No. G.S.R. 531 dated 4-4-1970 | 113. No. G.S.R. 97 dated 13-2-1988 |
| 78. No. G.S.R. 54 dated 2-1-1970 | 114. No. G.S.R. 237 dated 2-4-1988 |
| 79. No. G.S.R. 14 dated 2-1-1971 | 115. No. G.S.R. 414 dated 21-5-1988 |
| 80. No. G.S.R. 1006 dated 10-7-1971 | 116. No. G.S.R. 258 dated 8-4-1989 |
| 81. No. G.S.R. 1814 dated 4-12-1971 | 117. No. G.S.R. 107 dated 24-2-1990 |
| 82. No. G.S.R. 1988 dated 25-12-1971 | 118. No. G.S.R. 506 dated 7-9-1991 |
| 83. No. G.S.R. 52 dated 1-1-1972 | 119. No. G.S.R. 390 dated 6-8-1994 |
| 84. No. G.S.R. 509 dated 29-4-1972 | 120. No. G.S.R. 102 dated 22-1-1997 |
| 85. No. G.S.R. 1087 dated 9-9-1972 | 121. No. G.S.R. 264(E) dated 25-5-1998 |
| 86. No. G.S.R. 1187 dated 30-9-1972 | 122. No. G.S.R. 940(E) dated 27-12-2000 |
| 87. No. G.S.R. 1521 dated 2-12-1972 | 123. No. G.S.R. 121 dated 14-2-2001 |

5112 57/75

